

## प्रेस विज्ञप्ति थाना गुलरिहा दिनांक 15.11.2021

**हत्या कर शव को जमीन में गाड़ कर मिट्टी से ढक कर छिपाने वाले अभियुक्तगण 12 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार, आलाकत्ल बास का डण्डा व फावड़ा बरामद**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन व पुलिस अधीक्षक उत्तरी जनपद गोरखपुर के मार्ग दर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी चौराचौरा के निकट पर्वक्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा मय फोर्स के हत्या का खुलासा कर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया, दिनांक 14.11.2021 को लगभग 10.00 बजे जनता के लोगो द्वारा सूचित किया गया की ग्राम मंगलपुर टोला तिनहिया तालाब के पास धान के खेत में एक अज्ञात शव मिला है , जिस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची शव का पहिचान उसी लोगो में से मृतक के परिजनो द्वारा मृतक की पहचान मनोहर उराँव पुत्र विष्णु उराँव के रूप में हुई , जिसमें मृतक के चचेरे भाई सोमनाथ पुत्र करमली उराँव निवासी गोरिया डीह थाना घाघरा जिला गुमला झारखण्ड हाल मुकाम वीर मार्का भट्टा मंगलपुर थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर के लिखित सूचना वावत खुद के चचेरे भाई मनोहर उराँव पुत्र विष्णु उराँव को दिनांक 04.11.2021 को जुआ खेलने व शराब पीने के लालच देकर बहला फुसलाकर ले जाकर बाँस के डण्डे से मारपीट कर व गले पर बाँस का डण्डा लगाकर दबाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 608/21 धारा 302,201 भादवि0 पंजीकृत किया गया, मुखबीर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 608/21 के नामजद वांछित अभियुक्तगण 1. जगदीश पुत्र कुन्जीलाल लोहार निवासी शिवसरेन घाघरा गुमला राज्य झारखण्ड 2. राजेश उराँव पुत्र धनी उराँव नि0 जलका केन टोली घाघर गुलमा राज्य झारखण्ड 3. कार्तिक उराँव पुत्र गोपाल उराँव नि0 जकला वंशी टोला घाघरा गुमला राज्य झारखण्ड को अन्तर्गत धारा 302,201,34 भादवि0 में समय करीब 05.30 बजे प्रातः मंगलपुर तिनहिया दादा मार्का ईट भट्टे से गिरफ्तार किया तथा उनके निशानदेही पर आला कत्ल में प्रयुक्त बाँस का डण्डा (टुकड़ा) व एक अदद फावड़ा बरामद कर कड़ी मेहनत व लगन से घटना सफल अनावरण किया गया । अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है । ।

**गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

- 1- राजेश उराँव पुत्र धनी उराँव निवासी जलका केन टोली थाना घाघरा जिला गुमला झारखण्ड ।
- 2- कार्तिक उराँव पुत्र गोपाल उराँव निवासी जलका वंशी टोला थाना घाघरा जिला गुमला झारखण्ड
- 3- जगदीश लोहार पुत्र कुन्जीलाल लोहार निवासी शिवसरेन थाना घाघरा गुमला झारखण्ड ।

**गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक:-**

मंगलपुर दादा मार्का ईट भट्टा दिनांक 15.11.2021 समय 05.30 बजे ।

**बरामदगी-**

- 1- एक अदद बाँस का डण्डा आला कत्ल
- 2- एक अदद फावड़ा

**अभियुक्त को जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया का विवरण:-**

मु0अ0सं0 608/21 धारा 302,201,34 भादवि0 थाना गुलरिहा गोरखपुर

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम पद

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रहास मिश्रा थाना गुलरिहा गोरखपुर ।
2. का0 राहुल कुमार थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर ।
3. का0 चन्दन चौरसिया थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर ।